



27/01/2021

To,

National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra(East) Mumbai-400051 NSE Code- V2RETAIL	BSE Limited 25 th floor, PJ Tower, Dalal Street, Mumbai-400001 BSE Code-532867
---	---

Sub: Submission of Newspaper cutting pertaining to Notice of Board Meeting to be held on 4th February, 2021


Dear Sir,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements), Regulations, 2015, please find enclosed herewith newspaper cuttings pertaining to Notice of Board Meeting to be held on 4th February, 2021 for approval of unaudited financial results for the third quarter and nine months ended December 31, 2020, as published in Financial Express (English) all editions and Jansatta (Hindi) Delhi edition newspapers, on January 26, 2021.

Kindly take the above on records.

Thanking you,

Yours truly,
For V2 Retail Limited


Sudhir Kumar

Company Secretary & Compliance Officer

Encl: As above

The apex court also clarified that it will first hear on Monday those challenging outcomes of the unitholders' vote along with the issue of disbursal of

cash positive, with the over ₹9,000 crore for Noida, U.P. Franklin counsel Harjan, 2021. lier told the Bench.

Union Bank completes IT integration

PRESS TRUST OF INDIA
Mumbai, January 25

UNION BANK OF India on Monday said it has completed IT integration of all branches of erstwhile Andhra Bank with itself. In November, the lender had completed its IT integration with erstwhile Corporation Bank. The amalgamation of Andhra Bank and Corporation Bank with Union Bank came into effect from April 1, 2020.

"With this achievement, the entire IT integration of erstwhile Andhra and Corporation Bank branches with Union Bank of India has been completed," the lender said in a release.

All customers of erstwhile Andhra Bank and Corporation Bank have been successfully migrated to core banking solution (CBS) of Union Bank. It has also rolled out

internet banking, mobile banking, UPI, IMPS, treasury and swift for erstwhile Andhra and Corporation Bank customers.

"We are extremely delighted to achieve complete integration of all branches and delivery channels of erstwhile Andhra Bank and Corporation Bank. It opens huge opportunities for our customers and enhances our capability to offer innovative products and services," managing director and CEO Rajkiran Rai G said in the release.

The entire migration has been completed at record time with least inconvenience to customers i.e. without affecting any change in their account numbers, debit cards or net banking credentials, the bank said.

The current IFSC code and cheques can be used till March 31, 2021.

Sundaram Home Fin Q3 net rises 36%

SUNDARAM HOME FINANCE has registered a 36% growth in its net profit for Q3 to ₹56.24 crore, compared with ₹41.31 crore in the corresponding quarter of the previous fiscal.

Disbursements for Q3 stood at ₹4,16.57 crore as compared to ₹536.33 crore in the comparative period the previous year. The company raised over ₹3,600 crore during the first nine months of the year through a mix of debt instruments, term lending from banks, fixed deposits and refinance from the NHB.

FE BUREAU

KIRLOSKAR FERROUS INDUSTRIES LIMITED

A Kirloskar Group Company
Registered Office: 13, Laxmanrao Kirloskar
Pune 411 003, Maharashtra, India
CIN: L27101PN1991PLC063223

Statement of Unaudited Financial Results for the

Sr. No.	Particulars
1	Total Income from Operations
2	Net Profit for the period (before Tax and Exceptional Items)
3	Net Profit for the period before Tax (after Exceptional Items)
4	Net Profit for the period after Tax (after Exceptional Items)
5	Total Comprehensive Income for the period (comprising Profit (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) for the period)
6	Paid up Equity Share Capital (Face Value of ₹ 5)
7	Earnings Per Share (In ₹) (not annualised)
	(a) Basic
	(b) Diluted

The above is an extract of detailed format of quarterly Disclosures Requirements) Regulations, 2015. The BSE Limited at www.bseindia.com and the website of

Place: Koppal
Date: 25 January 2021

For PG Electroplast Limited
Sd/-
(Vikas Gupta)
Director



V2 Retail Limited

Reg. Off.: Khasra No. 928, Extended Lal Dora Abadi Village, Kapashera Border, Tehsil Vasant Vihar, New Delhi-110037
CIN: L74999DL2001PLC147724; Ph: 011-41771850
Email: cs@vrl.net.in; Website: www.v2retail.com

NOTICE

Notice is hereby given that Pursuant to the Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday, 4th February, 2021, through video conferencing/ other audio visual means to, inter alia, consider, approve and take on record the unaudited financial results of the Company for the third quarter and nine months ended December 31, 2020.

The said notice may also be accessed on the Company's website i.e. www.v2retail.com and on stock exchanges website i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com.

For V2 Retail Limited
Sd/-
Sudhir Kumar
Company Secretary & Compliance Officer
M. No. A25125

Place: New Delhi
Date: 25.01.2021

Before the National Company Law Tribunal

Jaipur Bench, Jaipur

CA(CAA) No.72 / 230 / JPR / 2020

Read with

IA No. 427/JPR/2020

in

CA(CAA) No.72 / 230 / JPR / 2020

In the Matter of the Companies Act, 2013 - Section 230(1) read with Section 232(1) And

In the Matter of:

Mangalam Cement Limited, a Company incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956 and being a Company within the meaning of the Companies Act, 2013, having Corporate Identification No. L26943RJ1976PLC001705 and its registered office at P.O.: Aditya Nagar - 326520, Morak, District: Kota, in the State of Rajasthan.

..... Applicant

NOTICE TO THE MEMBERS & CREDITORS OF MANGALAM CEMENT LIMITED FOR UPDATE OF E-MAIL ID

Notice is hereby given that by an order dated March 12, 2020 in CA(CAA) No.72/230/JPR/2020 of the Hon'ble Jaipur Bench of the National Company Law Tribunal ("Tribunal") as modified by an order dated January 07, 2021 in connected application IA No. 427/JPR/2020 of the Hon'ble Tribunal (hereinafter collectively referred to as the "Orders") has directed to reconvene the separate meetings of the Equity shareholders, Secured creditors and Unsecured creditors of Mangalam Cement Limited ("Transferee Company") for the purpose of considering, and if thought fit, approving with or without modification(s), the proposed Scheme of Amalgamation ("Scheme") of Mangalam Timber Products Limited ("Transferor Company") with the Transferee Company under Sections 230 to 232 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act").

In pursuance of the said Orders and as directed therein, further notice is hereby given that separate meetings of the Equity Shareholders, Secured Creditors and Unsecured Creditors of the Transferee Company will be held on Monday, March 01, 2021 at 10.00 A.M. (IST), 12.00 Noon (IST) and 2.30 P.M. (IST) respectively through Video Conferencing/Other Audio Visual Means ("VC/OAVM") in which the Members and Creditors concerned are request to attend. In view of the ongoing COVID-19 pandemic and related social distancing norms, as per the direction of the Hon'ble NCLT, the meetings shall be conducted through VC/OAVM. Hence, Members and Creditors can join and participate in their respective meetings through VC/OAVM facility only. The deemed venue of each meeting shall be Registered Office of the Company. Pursuant to above said Orders and all other applicable provisions, Company is providing the facility of e-voting during the respective meetings. Further the Transferee Company is also providing the remote e-voting and postal ballot facility for meeting of Equity Shareholders and remote e-voting facility for Creditor's meeting.

If your email ID is already registered with the Company/ Depository, Notice of respective meeting along with all necessary documents and login details for e-voting shall be sent to your registered email address. In case you have not registered your email ID with the Company/ Depository, please follow below instructions to register your email ID for obtaining login details for e-voting.

Registration of e-mail addresses by Equity Shareholders:

Physical Holding	Send a request to Registrar and Transfer Agent ("RTA") of the Company, MAS Services Limited at info@masserv.com providing Folio number, Name of the shareholder, scanned copy of the share certificate (Front and Back), PAN (Self-attested scanned copy of PAN Card), AADHAR (Self-attested scanned copy of Aadhar Card) for registering email address.
Demat Holding	Please contact your Depository Participant (DP) and register your email address as per the process advised by DP.

Registration of e-mail addresses by Creditors:

Secured and Unsecured Creditors of the Company as on cutoff date i.e. 31st December, 2020 can register their e-mail id registered by sending e-mail along with their PAN Card and GST

LEAD FINANCIAL SERVICES LIMITED
 Regd. Office: 101, Sita Ram Mansion,
 718/21, Joshi Road, Karol Bagh,
 New Delhi-110005
 CIN L74140DL1993PLC053485

Notice of Board Meeting

Pursuant to clause 29 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and SEBI Circular No. CIR/CFD/FAC/62/2016 dated 05th July, 2016, Notice is hereby given that the meeting of Board of Directors of the Company will be held on Monday, the 08th day of February, 2021 at 2.00 P.M. at the Regd. Office of the company, inter alia, to consider and take on record the unaudited financial results of the company with Ind-AS Compliance for the Quarter and nine months ended on 31st December, 2020.

For LEAD FINANCIAL SERVICES LIMITED
Sd/-
 Suman
 (Company Secretary)
 Place: New Delhi Date : 23.01.2021 M. No. A52842

राष्ट्रीय तम्बाकू नियन्त्रण कार
तम्बाकू निर्यात अधिनियम 2003 का
पालन करें या अर्थदण्ड अथवा कारावास का सामना

धारा-4 के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थान- जैसे स्मॉकशूट, अस्पताल, भवन, रेलवे स्टेशन, प्रतीक्षालय मनोरंजन केन्द्र, रेस्टोरेंट, शासकीय, कार्यालयों, न्यायालय परिसर, शिक्षण संस्थानों, पुस्तकालय, लोक परिवहन प्रणालियों, आदि में तम्बाकू के अनाधिकृत निर्यात, प्रसारण, वितरण, अथवा प्रयोग पर प्रतिबन्धित है।

धारा-5 के अन्तर्गत तम्बाकू उत्पादन के प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबन्ध है।
धारा-6 (अ) के अन्तर्गत 10 से कम आयु के अव्यक्त व्यक्ति को/के द्वारा तम्बाकू बेचना प्रतिबन्धित है।
धारा-6 (ब) के अन्तर्गत शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज परिधि में तम्बाकू बेचना प्रतिबन्धित है।

तम्बाकू का शौक, किशोरों में मौत आदि जीवन चुनने, तम्बाकू नहीं

डॉ० एम०सी० पाल
 नोडल अधिकारी, बाँदा

डॉ० एन०डी०शर्मा
 मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बाँदा

COURT NOTICE

In The Court Of Sh. Shaminder Pal
 Singh JMIC-6, Jalandhar
Cameo Sports Agencies Pvt Ltd
 Vs
Gurbinder Singh
CNR NO: PBJL03-009292-2019
NEXT DATE: 16-03-2021

Publication Issued To: Gurbinder Singh R/o Prop/ Authorized Signatory M/s Dashmesh Sports, Choudhary Complex, Sheed Chowk, Upper Bazar, Ranchi (Jharkhand)
 In above titled case, the accused could not be served. It is ordered that accused should appear in person or through counsel on 16-03-2021 at 10.00 a.m. for details logon to:
https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=Jalandhar
JMIC- 6 Jalandhar

V2
 Value & Variety

वी2 रिटेल लिमिटेड
 पंजी. कार्यालय: खसरा नं०: 928, एकसठेंडेड लाल डोरा आबादी बिल्डिंग, कापसहेडा बाईर, तहसील बसंत विहार, नई दिल्ली-110037
 CIN: L74999DL2001PLC147724; फोन: 011-41771850
 ईमेल आईडी: cs@v2l.net.in, वेबसाइट: www.v2retail.com

सूचना
 एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी (लिसिंग ऑब्लिगेशन और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमन 2015 के नियमन 29 के साथ पठित नियमन 47 के अनुसार, 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तीसरी तिमाही और नौमाही के अनकेशित वित्तीय परिणामों को अन्य बातों के साथ, विचार, स्वीकृत और ग्रहण के उद्देश्य के लिए कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक गुरुवार, 04 फरवरी, 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल के माध्यम से आयोजित की जाएगी।
 उक्त सूचना को कंपनी की वेबसाइट यानि www.v2retail.com पर और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट यानि www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी एक्सेस किया जा सकता है।

कृते वी2 रिटेल लिमिटेड
 हस्ता/-
सुधीर कुमार
 कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी
 M. No. A25125

स्थान: नई दिल्ली
 तिथि: 25.01.2021

Genus
 energizing lives
 जनस प्रथम उन्मा लिमिटेड
 (पूर्व में गुलशन केम्पल्स लिमिटेड)
 (CIN:L24117UP2000PLC032010)
 पंजी. कार्यालय: मोरादाबाद एज बिल्डिंग के फ्लोर, नन्द गेट, इंदौर, मोरादाबाद-244001 (उ.प्र.)
 Phone: 0591-2511171, Fax: 0591-2511242
 Website: www.genusprime.com, Email: cs@genusprime.com

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 29 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल को एक बैठक 8 फरवरी, 2021 को आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही एवं नौ माही के लिये कंपनी के अनकेशित वित्तीय परिणामों पर विचार, अनुमोदन कर उसे अभिलेख में लिये जायेगा। ट्रेडिंग विण्डो 1 जनवरी, 2021 से उक्त वित्तीय परिणामों को सार्वजनिक घोषणा के बाद 48 घंटे तक बंद रहेंगे। उक्त जानकारी कंपनी की वेबसाइट www.genusprime.com, तथा साथ ही स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी देखी जा सकती है।

बोर्ड के आदेश से
 हस्ता./-
अमित अमरवाल
 तिथि: 25 जनवरी, 2021
 स्थान: मोरादाबाद
 पूर्ण कालिक निदेशक

DCM NOUVELLE
DCM NOUVELLE LIMITED
 Registered office: 407, Vikrant Tower, Q4, Rajendra Place, New Delhi-110008
 Corporate Identity Number: L17309DL2016PLC307204
 Phone: 011-43678490
 E-mail: dcmnouvelletd@gmail.com, Website: www.dcmnl.com

NOTICE
 Pursuant to Regulation 29 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, it is hereby informed that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday 05, 2021 to consider and approve, the unaudited financial results for the quarter year ended December 31, 2020.
 The information contained in this notice is also available on the Company website www.dcmnl.com and on the website of Stock Exchanges, i.e. www.nseindia.com and www.bseindia.com.

For DCM Nouvelle Limited
Sd/-
Sandeep K. Jain
 Chief Financial Officer
 Place : New Delhi
 Dated : January 26, 2021

RELIANCE
 Asset Reconstruction
ए-13/1, छठी मंजिल, सिनजी टॉवर,
सेक्टर-62, नोएडा (उ.प्र.)-201309

जैसा कि अधोस्ताथरी ने वित्तीय आसिषों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत रिलायंस एआरसी प्राइवेट लिमिटेड (रिलायंस एआरआरसी 012 ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्यरत) का अधिकृत प्राधिकारी है। यह कि रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड ने एसाइनमेंट डीड के दिनांक 24.03.2017 के माध्यम से मूल ऋणदाता लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड से वित्तीय आसिषों के पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूतिकरण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित कर्जदारों से सूचना में उल्लिखित राशि का कथित सूचनाओं को प्राप्ति की तिथि से साठ (60) दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने को कहते हुए मांग सूचना जारी की।
 कर्जदार/जमानतियों/बंधककर्ताओं द्वारा राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण, कर्जदार/जमानतियों/बंधककर्ताओं को और जनसामान्य को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अधोस्ताथरी ने कथित अधिनियम के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग नीचे वर्णित तिथि पर सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।
 विशेष रूप से कर्जदार/जमानतियों/बंधककर्ताओं को और जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्तियों से किसी प्रकार का संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्तियों के साथ संव्यवहार राशि तथा उस पर ब्याज के लिए रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड (रिलायंस एआरआरसी 012 ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्यरत) के चार्ज के अधीन होगा।
 विशेष रूप से कर्जदार और जमानतियों को और जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्तियों से किसी प्रकार का संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्तियों के साथ संव्यवहार राशि तथा उस पर ब्याज के लिए रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा।

कब्जा सूचना
[नियम 8(1) देखें]

जैसा कि अधोस्ताथरी ने वित्तीय आसिषों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत रिलायंस एआरसी प्राइवेट लिमिटेड (रिलायंस एआरआरसी 012 ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्यरत) का अधिकृत प्राधिकारी है। यह कि रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड ने एसाइनमेंट डीड के दिनांक 24.03.2017 के माध्यम से मूल ऋणदाता लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड से वित्तीय आसिषों के पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूतिकरण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित कर्जदारों से सूचना में उल्लिखित राशि का कथित सूचनाओं को प्राप्ति की तिथि से साठ (60) दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने को कहते हुए मांग सूचना जारी की।
 कर्जदार/जमानतियों/बंधककर्ताओं द्वारा राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण, कर्जदार/जमानतियों/बंधककर्ताओं को और जनसामान्य को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अधोस्ताथरी ने कथित अधिनियम के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग नीचे वर्णित तिथि पर सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।
 विशेष रूप से कर्जदार/जमानतियों/बंधककर्ताओं को और जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्तियों से किसी प्रकार का संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्तियों के साथ संव्यवहार राशि तथा उस पर ब्याज के लिए रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड (रिलायंस एआरआरसी 012 ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्यरत) के चार्ज के अधीन होगा।
 विशेष रूप से कर्जदार और जमानतियों को और जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्तियों से किसी प्रकार का संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्तियों के साथ संव्यवहार राशि तथा उस पर ब्याज के लिए रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा।

(अचल सम्पत्ति हेतु)

कोर्समेंट ऑफ सिन्क्रोरिटी इंटरैस्ट एक्ट 2002 के नियम 3 के अंतर्गत धारणीय हेतु एक डिमांड नोटिस जारी किया था। निम्न प्रत्येक खाते के सम्बन्धित तिथि को उक्त नियमों के अंतर्गत प्रयोग में अधोलिखित सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा इन परिसम्पत्ति के किसी भी क्रय विक्रय के लिए यहाँ नीचे के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत धारणीय हेतु एक डिमांड नोटिस जारी किया था।

नोटिस की तिथि/मांग अनुसार बकाया राशि	सांकेतिक कब्जे की तिथि	प्राधिकृत अधिकारी का नाम
02.2020	21.01.2021	श्री अश्वनी कुमार 9818322367
17,405.00 + व अन्य खर्चें	01.01.2020 से	

प्राधिकृत अधिकारी

सर्फिसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत ई-नीलामी की दूसरी बिक्री सूचना
 प्रसंस्थान-3002001
 तिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम

बिक्री की तिथि एवं समय	जमा करने की अंतिम तिथि	नियंत्रण की तिथि एवं समय	आरक्षित मूल्य	सम्पत्ति का ईएमडी
बिक्री की तिथि : 12.02.2020	बिक्री करने की तिथि : 12.02.2020	बिक्री करने की तिथि : 10.02.2020	आरक्षित मूल्य (रु. में) 1,07,38,620/-	(रुपये एक करोड़ सात लाख आठ सौ बासठ मात्र)
बिक्री करने का समय : 12.00 बजे दोपहर	बिक्री करने का समय : 10.00 बजे दोपहर	बिक्री करने का समय : 10.02.2020 को 5.00 बजे	रु. 10,73,862/-	(रुपये दस लाख तिहत्तर हजार आठ सौ बासठ मात्र)

यदि किसी भी तृतीय पार्टी के हितों की जांच कर स्वयं को संतुष्ट कर लें। सभी तिथि एवं तिथि के अंतर्गत धारणीय हेतु एक डिमांड नोटिस जारी किया था।

जिसमें किसी भी तृतीय पार्टी के हितों की जांच कर स्वयं को संतुष्ट कर लें। सभी तिथि एवं तिथि के अंतर्गत धारणीय हेतु एक डिमांड नोटिस जारी किया था।

जिसमें किसी भी तृतीय पार्टी के हितों की जांच कर स्वयं को संतुष्ट कर लें। सभी तिथि एवं तिथि के अंतर्गत धारणीय हेतु एक डिमांड नोटिस जारी किया था।

जिसमें किसी भी तृतीय पार्टी के हितों की जांच कर स्वयं को संतुष्ट कर लें। सभी तिथि एवं तिथि के अंतर्गत धारणीय हेतु एक डिमांड नोटिस जारी किया था।